Akashdeep Metal IndustriesLimited

CIN:L28998DL1983PLC017150

Registered Office

14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor, Vikas Marg Ext, Delhi-110092 Tel: +91-11-43011038

> Email: <u>info.akashdeep14@gmail.com</u> Website: www.akashdeepmetal.in

September 7, 2020

Deputy Manager

Department of Corporate Services,

BSE limited, Floor 25,

P.J Towers, Dalal Street,

Fort, Mumbai- 400001

Scrip Code: 538778

Sub: Newspaper Advertisement-Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Notice published in the newspapers, "FINANCIAL EXPRESS" (In English) and "JANSATTA" (in Hindi) on September 7th, 2020.

Kindly take the same on your records.

Thanking you,

For Akashdeep Metal Industries Limited Sd/Rajesh Gupta
Managing Director
DIN: 00006056

Enclosure: As Above

Contact No.:- 9312210696

FINANCIAL EXPRESS

GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER PMGSY (JKRRDA) JAMMU. **NOTICE INVITING E-TENDERS** e-NIT No:-CEJ/PMGSY/602 of 2020-21 Dated: 02/09/2020

invites e-tenders on %age Above/Excess (+) OR %age Below/ Less (-) basis (i.e. on Percentage-Rate Basis) from approved and eligible Contractors registered with J&K State Govt, CPWD, Railways or equivalent and other State Govts up to 5.00 PM on 16-09-2020 for each of the following works including Maintenance Period of five years for Stage-II after construction

S. No.	Name of Work/ Package No.	Name of the PIU	Constt. part (Rs. in lacs)	Maintt. part (Rs. in lacs	Total (Rs. in lacs)	Cost of document (Rs. in Lacs)	Earnest Money (Rs. in lacs)	Time Allowed fo completion	Call of tender	Time and date of opening of tenders	Class of contractor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Providing and Laying of Renewal Coat from Sidhra to Rangoora, Package No-JK05-87, Block- Purmandal, District-Jammu, Length-3.000 kms Adv. Cost excluding maintenance but inclusive of GST = Rs.40.74 Lacs	Jammu	40.74	4.89	45.63	0.06	0.91	06 Months	3rd	10.00 AM 17-09 -2020	D/CPWD/ Railways or equiva- ided in the Standard Bidding for the works
2	Providing and Laying of Renewal Coat of Km 16th of T02 Suran Mendhar Phamrana road to Parat Package No. JK11-116, Block Mendhar, District Poonch. Length:- 5.00 Kms Adv. Cost excluding maintenance but inclusive of GST = Rs. 56.35 Lacs	Mendhar	56.35	6.76	63.11	0.06	1.26	06 Months	2nd	10.00	Any registered contractor with State PWD/CPWD/ Railways or equivalent qualifying eligibility criteria as provided in the Standard Bidding Documents can tender for the works

dersjk.gov.in from 06.55 P.M on 05-09-2020 to 16-09-2020 (5.00PM).

No:-CEJ/PMGSY/5870-5940 Dated:- 02-09-2020 DIP/J-4149/20

Sd/- Chief Engineer PMGSY (JKRRDA) Jammu Government of Jammu & Kashmir Jammu and Kashmir

HINDUSTAN COMMERCIAL CO. LIMITED

Regd. Office: C-76, First Floor, Sector 22, Noida Gautam Buddha Nagar, UP 201 301

CIN: U51909UP1984PLC099025; Website: www.hindustancommercial.co.in Email: hindustancommercial@yahoo.com , Ph. No.+91-11-25769111 Notice is hereby given that The Thirty - Sixth Annual General Meeting of the members of the company will be held registere office of the Company at C-76, First Floor, Sector-22, Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P.

201301 on Monday, September 28, 2020 at 10:00 AM to transact the businesses set forth

The Notice of the AGM have been sent to Members through permitted mode to the shareholder whose email addresses are available with the Company. The notice also made available or

Company's website hindustancommercial.co.in. In terms of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015, as amended, the Company is providing to all its members remote e-voting facilitythrough e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) to cast their vote on all the business set out in the notice of AGM,. Further in this regard members are notified that:

The remote e-voting period will commence on September 24, 2020 at 09:00 AM and will ends on September 27, 2020 at 05.00 PM. The remote e-voting shall not be allowed beyond this

The cut-off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting and at AGM is September 21, 2020. A person whose name appears in the register of Members/ Beneficial owners as on cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at AGM. The Members who have cast their vote through remote e-voting may participate at AGM, but shall not entitled to vote again in the AGM. Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at AGM. A person who has acquired shares and become member of the company after dispatch of the Notice of the AGM and hold shares as on cut-off date, may obtain login-id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindian.com. However, if the member us already registered with CDSL for e-voting, then he can use his existing login-id/password for casting his vote through remote e-voting.

All the members holding shares in physical, will use their folio no. for login.

In case of any queries/grievances relating to e-voting, members may refer Frequently Asked Questions (FAQs)/e-voting user manual for members available under section HELP a www.evotingindian.com or contact CDSL on helpdesk.evoting@cdslindian.com or call Book closure: Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and rules framed there

under, the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from September 22, 2020 to September 28,2020 (both days inclusive) for the purpose of the For Hindustan Commercial Co. Limited

Date : September 05, 2020 Place : Noida

Mohanan Thrayil DIN: 08310232

Shivalik Bimetal Controls Ltd. Regd. Office: Plot No. 16-18, New Electronics Complex,

Chambaghat, Distt. Solan-173213 (HP) Ph: +91-011-26027174, Fax: +91-011-26026776 Website:-www.shivalikbimetals.com, Email: investor@shivalikbimetals.com CIN: L27101HP1984PLC005862

NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, 29th day of September, 2020 at 11.00 AM through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses set out in the Notice of the AGM dated 01st September, 2020. In view of the Covid-19 pandemic prevailing, the Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular Nos. 14/2020 17/2020 and 20/2020 dated 08th April 2020, 13th April 2020 and 05th May 2020 respectively read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred as "the said circulars"), has allowed Companies to conduct their Annual General Meeting through VC/OAVM without the physical presence of the Shareholders at a common venue, in compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ("the SEBI Listing Regulations").

The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM and attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company has engaged services of National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating e-voting to enable the members to cast their votes electronically using remote e-voting system as well as e-voting during the AGM. Details pursuant to the provisions of

the Companies Act, 2013 and Listing Regulations, 2015 is given below:

Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is 22nd

IST) and ends on Monday, September 28, 2020 (5:00 p.m. IST).

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time as the

same shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Further, Voting through electronic voting system will also be made available during the AGM. The Members attending the AGM, who have not casted their votes through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be able to exercise their voting rights at the

equity share capital of the Company as on the cut-off date of Tuesday, September 22,

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, September 22, 2020, may obtain the login ID and password by sending a

remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

Pursuant to applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 23rd September, 2020 Annual General Meeting.

you may please follow below instructions for obtaining the login details for e-voting:

	 Send a signed request to Registrar and Transfer Agents of the Compani MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Nam of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back PAN(Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.
l	Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i. MAS Services Limited, T-34 2nd floor, Okhla industrial area Phase-II, Ne

Delhi 10020 alongwith letter mentioning folio no. If not registered already.) PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 22/09/2020

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email

address as per the process advised by DP. Please also update your bank PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 22/09/2020

Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in, or can also contact with RTA Mas Services Limited, Mr. Deepanshu Rastogi Assistant Manager, at info@masserv.com phone: - 011-26387281-83

(NSDL) https://www.evoting.nsdl.comrespectively.

For Shivalik Bimetal Controls Limited Sd/-

Company Secretary

[See rule 329]

MEMBERS VOLUNTARY WINDING UP PEROT SYSTEMS INDIA FOUNDATION CIN: U85310DL2006NPL150011

Notice convening Final Meeting of Contributories

Notice is hereby given in pursuance of Section 497 that a general meeting of the members of the above named company will be held at 294, Shantikuni, Sector 9, Pocket 2, Dwarka, Delhi 110077 on Wednesday the 7th day of October 2020 at 12 Noon for the purpose of having an account laid before them showing the manner in which the winding up has been conducted and the property of the Company disposed off and for hearing any explanation that may be given by the liquidator and also for determining by a special resolution of the Company, the manner in which the books, accounts and documents of the company and of the liquidator shall be disposed off.

> for JCSS & Co, Chartered Accountants Registration No.: 009178S Liquidators of Perot Systems India Foundation

SRIKANTH SRINIVASAN

Place : Bangalore Partner Date: 07.09.2020 Membership No. 206637

Ind-Swift

Ind-Swift Laboratories Ltd.

Regd. Off.: SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh. 160101 CIN No.L24232CH1995PLC015553

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING & BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, the 29th September, 2020 at 11:30 A.M.

transact the businesses, as set out in the Notice of AGM. In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and also SEBI vide circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, have permitted the holding of AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013

through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to

and SEBI (LODR) Regulations, 2015, the AGM of the Company will be held through VC / OAVM only. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM by following the instructions given in the AGM Notice. In compliance with the aforesaid circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Members are requested to kindly update their e-mail address with depository participants in case of holding shares in demat form. If holding shares in physical form, Members are requested to inform their e-mail ID to the Company. In case of Member(s) who have not registered their email addresses with the

 Members holding shares in Physical mode, please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor@indswiftlabs.com. Members holding shares in Demat mode, please provide Demat account

Company/Depositories, are requested to please follow the below instructions to

register their email address for obtaining Annual Report 2019-20 and login

details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to investor@indswiftlabs.com. Members may note that the Annual Report 2019-20 including the Notice of AGM

will be available on the company's website at www.indswiftlabs.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules thereunder and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members & Share Transfer Books of Company shall remain closed from 25th September,

2020 to 29th September, 2020 (both days inclusive) for purpose of AGM. Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company is providing to its members facility to cast their vote by electronic means (e-voting) on all the resolution set forth in the notice of AGM. The e-voting period commences on Saturday, 26th September, 2020 at 9:00 A.M (IST) and ends on Monday, 28th September, 2020 at 5:00 P.M (IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Please note that the shareholders who holds shares either in dematerialized or in physical form, as on cut off date (i.e. 22nd September, 2020), may cast their

In case any query/ grievance(s) connected with the electronic voting, members may please refer the Frequently Asked Question (FAQ) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or the grievances can be addressed to the Director of the Company at the Registered Office of the Company or email id investor@indswiftlabs.com For Ind-Swift Laboratories Ltd.

Place: Chandigarh Date: 06.09.2020

PARDEEP VERMA AVP- Corp. Affairs & Co. Secy.

PEGASUS ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED 55-56, 5th Floor, Free Press House, Nariman Point, Mumbai-400021 Ph: 91-22-61884700 Email: sys@pegasus-arc.com URL: www.pegasus-arc.com

DEMAND NOTICE

Notice is hereby given to the borrowers/guarantors as mentioned below that since they have defaulted in repayment of the Credit facility availed by them from Indusind Bank Ltd., their loan accounts have been classified as Non-Performing Assets on 07/03/2019 in the books of the Bank in accordance with the RBI guidelines in this respect. Thereafter, Pegasus Assets Reconstruction Pvt Ltd (Herein after referred to as "Pegasus") had issued Demand Notices on 02/07/2020 under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) on the last known addresses of the said borrowers thereby calling, upon and demanding from them to repay the entire outstanding amount of Rs. 2,52,79,216/-(Rupees Two Crore Fifty Two Lakhs Seventy Nine Thousand Two Hundred Sixteen Only) as on 22/03/2019, together with further interest at the contractual rate on the aforesaid amount, and incidental expenses, cost, charges, etc, as stated in the said demand notice. In view of the non-service of notice to the last known address of the below mentioned borrowers/guarantors, this public notice is being published for information of all concerned.

Indusind Bank has vide a Deed of Assignment dated 29/03/2019 assigned in favour of Pegasus, inter alia, the debt due and payable by you along with all its right, title, interests, benefits, under/in respect of your captioned loan account/agreement along with the underlying security and security interest created in respect of immovable property/les for repayment of the debt. In view of the said assignment agreement we have become entitled to initiate/ adopt appropriate legal action and/ or continue to pursue any existing legal action in its own name against you all for recovery of the dues and the disposal of the secured assets of the said facility. Thus, Pegasus has become entitled to and does issue this notice to you under Section 13(2) of the Act and therefore serves the said notice dated 02/07/2020 by way of this publication as per Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rule,

Sr. No. Name and Address of Borrowers/Guarantors M/s Nandini Women Plaza

13/38, Chaar Bagh, Shahganj, Agra -282010 Mr. Narayan Dass Panjwani S/o Mr Mohan Lal Punjwani House No.1, Albatiya Road, Neelgiri Sindhi Enclave, Shahgani, Agra -282010 Mrs. Deepa Panjwani W/o Mr Narayan Das Panjwani

House No.1, Albatiya Road, Neelgiri Sindhi Enclave, Shahganj, Agra -282010 Mr. Sanjay kumar Panjwani, S/o Mr. Mohan Lal Panjwani A-52. Nahuman Nagar, Manu Vihar, Phase-II, Maruti Estate, Shahganj, Agra -282010

Mrs. Varsha Panjwani W/o Mr Sanjay Panjwani House No. 1, Albatiya Road, Neelgiri Sindhi Enclave, Shahganj, Agra -282010

Mr. Kamal Panjwani S/o Mr. Mohan Lal Panjwani House No. 1, Albatiya Road, Neelgiri Sindhi Enclave, Shahgani, Agra -282010

Mr. Deepak Panjwani S/o Mr. Narayan Das Panjwani House No.1, Albatiya Road, Neelgiri Sindhi Enclave, Shahgani, Agra -282010

26A, Swadeshi Beema Nagar, Civil Lines, Church Road, Agra -282010

Mr. Puneet Panjwani S/o Mr Mohan Lal Panjwani House No. 1, Albatiya Road, Neelgiri Sindhi Enclave, Shahgani, Agra -282010

Description of Secured Assets (Immovable Property) Description of Immovable Properties:

All those piece and parcel of immovable commercial property situated at Muncipal Corporation

No, 2/26A (Juj Part North South side), Swadeshi Beema Nagar, Ram Nagar Colony, Church Road, Near Torrent power office, Hari Parwat ward, Agra measuring 70.61 Sq.Mtr. Owned by Mr. Sanjay Kumar Panjwani, Mrs Versa Panjwani, Mr. Narayan Das Panjwani and Mrs Deepa Panjwani, and bounded as under South: Church Road North: Property No.2/26B

West: Part Property No. 2/26A(Juj Part) East: Part Property no. 2/26A(Juj Part) Details of Total Outstanding Dues : -

Outstanding dues as on 22/03/2019

Facility	Loan Against Property		
Amount of Loan Limit	Rs.2,50,00,000/-		
Principal outstanding	Rs.2,43,08,000/-		
Interest outstanding	Rs.9,71,216/-		
Total Outstanding as on 22/03/2019	2,52,79,216.00		
Dangerre haraby calle upon your all injusty and eavers	du to nau to Pagaeue, within 60 (eixtu) days from		

the date of this notice, an amount of Rs. 2.52,79,216/- (Rupees Two Crore Fifty Two Lakhs Seventy Nine Thousand Two Hundred Sixteen Only) as on 22/03/2019 together with further interest at the contractual rate on the aforesaid amount, and incidental expenses, cost, charges, etc. being the aggregate of the amounts due and payable in respect of all of the financial assistance(s). Please note that if the concerned borrower/quarantor fails to make payment to Pegasus as aforesaid, the Pegasus shall be entitled to exercise all or any of the rights mentioned under section 13(4) of the Act and the applicable Rules entirely at the risk of concerned Borrowers/Guarantors as to cost and consequences. Please also note that as per section 13 (13) of the Act, immediately on receipt of notice, you all are prohibited from transferring by way of sale, lease or otherwise, the secured assets without the prior written consent of the Pegasus. Please also note that any breach of this provision of Section 13(13) will attract penal provisions as laid down under section 29 of the Act and other legal provisions in accordance with any other law. Please note that as per sub-section (8) of section 13 of the Act, if the dues of Pegasus together with all costs, charges and expenses incurred by Pegasus are tendered to Pegasus at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by Pegasus, and no further step shall be taken by Pegasus for transfer or sale of that secured asset. Place: Delhi Date: 07/09/2020

Authorized Officer, Pegasus Assets Reconstruction Private Limited (Trustee of Pegasus Group One Trust-37) FORM NO. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part-I of Chapter XXI [Pursuant to Section 374(b) of The Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorized to Register) Rules, 2014]

Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of The Companies Act, 2013, an application to be made to the Registrar at Registrar of Companies, NCT of Delhi & Harvana at 3rd Floor, IFCI Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 that A2Y EXPORTS LLP a limited liability partnership may be registered under Part-I of Chapter XXI of The Companies Act, 2013 as company limited by shares.

The principal objects of the company are as follows:

To carry on the business of trading, dealing, import and export of all kinds of Merchandised goods and medical products of every description.

A copy of draft Memorandum of Association and Articles of Association of the proposed Company may be inspected at the office at PLOT NO. 33, 1st FLOOR, VISHAKHA ENCLAVE BLK-DU LANDMARK INCOME TAX COLONY, PITAMPURA NEW DELHI North West DL 110034.

Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate his/her objection in writing to the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, 3rd Floor, IFCI Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 within twenty one days from the date of publication of this notice with a copy to the company at its registered office.

Date: 6-9-2020 Place: Delhi

DESIGNATED PARTNERS **GAURAV PRUTHI & DEEPAK BHATIA**

For A2Y EXPORTS LLP

AKASHDEEP METAL INDUSTRIES LIMITED CIN: L28998DL1983PLC017150

Registered Office: 14 Dayanand Vihar, Backside Ground Floor, Vikas Marg Extn., Delhi-110092 Tel: +91-11-43011038. Website: www.akashdeepmetal.com; Email: info.akashdeep14@gmail.com

NOTICE TO MEMBERS

INFORMATION REGARDING 36" ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 36" Annual General Meeting ("AGM") o Akashdeep Metal Industries Limited ("the Company") is scheduled to be held on Wednesday, September 30, 2020 at 12:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/other Audio Visual means ("OAVM") facility, in compliance with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate affairs ("MCA Circulars") and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), to transact the businesses as

setforth in the Notice convening the said AGM. In line with the said MCA Circulars, the notice of the 36" AGM along with the Annual Report 2019-20 are being sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company Depositories. Therefore, Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register by following the steps as given below:-

 For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning your folio number, complete address. email address to be registered along with scanned self attested copy of the PAN and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by email to the Company's email address info.akashdeep14@gmail.com. For the Members holding shares in demat form, please update your email

address through your respective Depository Participant/s. The Notice of the 36" AGM is available on the Company's website www.akashdeepmetal.com and on the website of the Stock Exchange, viz. BSE Limited (www.bseindia.com).

cast their votes. The detailed procedure for e-voting is set forth in the Notice of the AGM. Members whose e-mail id is not registered with the Company Depositories can obtain logincredentials for e-voting by providing the details mention herein below to email id of Company or RTA viz. info.akashdeep14@gmail.com or ippl@indusinvest.com respectively:-For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No.

The Company is providing remote e-voting facility before and during the AGM to

its Members through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to

Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back). PAN (self- attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self- attested scanned copy of Aadhar Card). For Demat shareholders-providingDemat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy

of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card). The Company / RTA shall co-ordinate with CDSL and provide the login credentials to the above mentioned shareholders. The above information is being issued for the information and benefit of all the

Members of the Company. For Akashdeep Metal Industries Limited Place: New Delhi Mr. Rajesh Gupta

Date: 05.09.2020

NOTICE OF 32ndANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE AND E-VOTING ISF LIMITED** CIN-L74899DL1988PLC076648

Registered Office: K-10, SomVihar, RK Puram New Delhi-110022.

NOTICE is hereby given that the 32ndAnnualGeneral Meeting of the Company will be held on Tuesday, 29th September, 2020, at 11:30 A.M. IST at registered office of the company through two way Video Conferencing ('VC') facility / other audio visual means ('OAVM') only, in compliance with all applicable provisions of Companies Act, 2013 and the rules made there under and the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular dated May 12, 2020, to transact the business as set out in the Notice and a copy of which, along with the relative explanatory statement, has been sent to the Members of the Company at their registered email address with the Company. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM or view the live webcast at http://www.skylinerta.com. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of Quorum under Section 103 of Companies Act, 2013.

financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company Depository Participant(s) on (07-09-2020). The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vides MCA Circulars and the SEBI Circular. The aforesaid documents will also be available on the website of the Stock Exchange i.e., BSE limited at www.bseindia.com and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. on http://www.skylinerta.com.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the 32nd AGM and the standalone

The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from the 23rdSeptember, 2020 to 29thSeptember, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting. **Voting through Electronic Mode:**

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting"), as provided by National Securities Depositories Limited (NSDL), on resolutions as set out in the Notice of the

a) Date and time of commencement of remote e-voting: September 26, 2020 at 10.00 AM

b) Date and time of end of remote e-voting: **September 28, 2020 at 5.00 PM** c) Cut-off date for determining the eligibility to vote: **September 22, 2020**

f) Any person whose name appears in the Register of Members of the Company/ the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as on 22ndSeptember, 2020, shall be entitled to vote.

g) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://www.evoting.nsdl.com.under.help.section.

register the transfers.

info@skylinerta.com, for the upcoming AGM of the company to be held through video conferencing and/or other Audio Visual means. While sending the request, kindly keep the subject as Update/Register the Email ID (mention your DP Id/Client ID/Folio No.) and also send your self certified copy of Pan Card.

YajyaVashistha Place: New Delhi Company Secretary

Note: Members may please intimate immediately any change in their e-mail

ARCOTECH LIMITED

CIN:L34300HR1981PLC012151, 181, Sector-3, Industrial Growth Centre, Bawal, Distt. Rewari, Haryana-123501 Website: www.arcotech.in, mail: contact@arcotech.in, Tel: 0128-4264160

NOTICE is hereby given that a meetin of the Board of Directors of the Compan will be held on Monday, the 14th September, 2020 at F-701A, Lado Sarai, New Delhi-110030, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the Quarter 30th June, 2020. Further, in pursuant of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of nsider Trading) Regulations, 2015, the Trading window was closed from 01st July 2020 and would remain closed till 16th September, 2020 (Both Days Inclusive) for the purpose of declaration of Un-Audited financial results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2020. Intimation is also available on the website of the company (www.arcotech.in) and

www.nseindia.com) FOR ARCOTECH LIMITED Place: New Delhi KRISHAN KUMAR MISHRA

Place: New Delhi

Stock Exchanges (www.bseindia.com and

ate: 05.09.2020 COMPANY SECRETARY

provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Meeting of the Board of Directors of the M/s. SUNRISE DISTILLERIES LIMITED wil be held on Monday, 14th September, 2020 at 04:00 PM at its registered office at 3/14A. 01st Floor, Vijay Nagar, Double Storey, Delhi-110009 inter-alia, to consider, approve & take on record the UnauditedStandalone Financial Results for the QuarterEnded 30th June, 2020 and any other item of business as mentioned in agenda. This intimation is also available on the website of the Stock Exchanges where the shares of

the company are listed at www.msei.in.

Place: New Delhi Company Secretary &

For Sunrise Distilleries Limited

Yashica Sinha

Name of Shareholder

SUNRISE DISTILLERIES LIMITED CIN: L15511DL1985PLC021272 Regd. Office: 3/14A, 01st Floor, Vijay Nagar, Double Storey, Delhi-110009 Email: sunrisedistillerieslimited@gmail.com Ph: 09868008427

Notice is hereby given that pursuant to the

Date:07.09.2020 Compliance Officer NOTICE is hereby given that the below mentioned share certificates of Odisha Cement Ltd., having their Registered Office at: Dalmiapuram Tiruchirapalli Dist Tamil Nadu 621651 are lost/misplaced and the Company is in the process of issuing duplicate share certificates in lieu thereof on request made by the Registered

	Certificates.								
	Folio No.	Name of registered shareholder	Share certificate no.	Distinctive no.	No. of shares				
10	DBL0225091	Ved Prabha & Jagdish Chandra Dawar	225091	188334966-188337575	2610				

shareholder and on execution of documents required for issue of duplicate share

Any person who has a valid claim on the said shares may lodge such claim with the Company at their Corporate Office within 15 days hereof failing which the Company will issue duplicate share certificates and no claim will lie thereafter.

Date:05/09/2020 Ved Prabha & Jagdish Chandra Dawar OSWAL YARNS LIMITED

REGD. OFFICE: OSWAL HOUSE, LINK ROAD, INDUSTRIAL AREA-A, LUDHIANA-141003

EMAIL: oylyarns@rediffmail.com, CIN:L117111PB1082PLC005006, PHONE:0161-2224256 NOTICE is hereby given that 38th Annual General Meeting of the Company will be held on Wenesday 30th September 2020 at 11.00 A.M through video conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, MCA circular dated May 2020 read with circulars dated 8 April 2020 and 13 April 2020 (collectively referred to as *MCA Circulars*) and SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, to transact the business as set out in the Notice calling AGM.

The Company is providing the facility of voting electronically (remotevoting) through a voting Platform of Link Intime India Private Limited. The procedure for E-voting is given Under Voting through electronic means in the Notice. E-voting period commences on Sunday, September 27, 2020 at 9.00 A.M and ends on Tuesday, September 29, 2020 at 5.00 P.M. During this period, shareholders of the Company as on cutoff date i.e Wednesday, September 2020 may cast their vote electronically. The remote e-voting facility shall not be allowed beyond the said time and date. Any person who becomes the member of the company after despatch of notice of the meeting and holding shares on the cut-off date i.e September 23, 2020 may obtain the User Id and Password sending request atdelhi@linkintime.co.in. The detailed procedure for obtaining of User Id and Password is also provided in the Notice. If the member is already registered with the Registrar for e-voting may attend the meeting but shall not been titled to cast their vote again. The Notice of the 38th AGM along with explanatory statement and other annexures is also displayed on the Company's website www.oylyarns.com. In case of any queries or issues regarding e-voting you may refer the FAQ'S and e-voting manual available at www.instavote.linkintime.co.in or the grievance can be addressed to Mr. Bansi Lal Bhat, Compliance officer at the Registered office of the Company or at email at oylyarns@rediffmail.com or at phone no: 0161-2224256.

The Register of Members and Share Transfer books of the Company shall remain close from Thursday, September 24, 2020 to Wednesday, September 30, 2020 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General meeting of the Company.

Place: Ludhiana

Date: 05.09.2020

Tej Paul Oswal (Managing Director) DIN: 0781144

Regd. Off.: B-42. Lower Ground Floor, Panchsheel Enclave, New Delhi - 110017 CIN: L67120DL1983PLC015266 - Email ID: info@aarshyam.in Website: www.aarshyam.in - Ph No. 91 11 45626909

CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Aar "VC") Shyam India Investment Company Limited will be held through Video Conferencing Other Audio Visual means ("OAVM") on Sunday, the 27th September, 2020 at 1.00 pm t

transact the Ordinary Business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting,

Annual Report for the financial year ended March 31, 2020 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository The date of completion of email of the notices to the shareholders s September 05, 2020. n case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow pelow instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2019-20 and login details for e-voting.

scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services imited, T-34 2rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) along with letter mentioning folio no. if not registered already.

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

These documents are also available on Company's website www.aarshyam.in for download by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) through their portal www.evotingindia.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Thursday, September 24, 2020 (09:00 am) and ends on Saturday, September 26, 2020 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said tate and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical

orm or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 20, 2020, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 20, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at nelpdesk@cdslindia.com or RTA, MAS Services Limited at info@masserv.com. However, if the nembers are already registered with CDSL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member. the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by emote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cas their vote again. Shri Kundan Agrawal, Practicing Company Secretary (Membership No. 7631 & CP No. 8325), Proprietor M/s. Kundan Agrawal & Associates, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms. Princy Anand, Company Secretary and Compliance Officer, AAR SHYAM INDIA INVESTMENT COMPANY LIMITED, B-42, Lower Ground Floor, Panchsheel Enclave, New Delhi - 110017, Phone: 91 11 45626909, Email: info@aarshyam.in VOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 1 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, the September 21, 2020 to Sunday, the September 27, 2020 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting. All the shareholders are requested to immediately update their Bank Account No. with 9-digit MICR Code (either Bank Account No. or 9-digit MICR No. or both), if the same has not been updated with the Company's share transfer agent or the depository participant, as the case may be. As per Circular No. NPCI / 2016-17/NACH 1203 dated December 08, 2016; NPCI has stipulated that for processing of electronic payment, account number should be minimun 10 digit and 9 digit in case of Indian Bank. Account number with less than 10 digit, or 9 digit in case of Indian bank will be rejected. You are accordingly requested to please update your bank details

as per NPCI rules for electronic payment of dividend in line with the above said circular. for Aar Shyam India Investment company Limited

Place: New Delhi Date: 05th September, 2020

Company Secretary & Compliance Officer

Reliance Asset Reconstruction Co. Ltd.
Registered Office: Reliance Centre, 6th Floor, North Wing, Off Western Express Highway,

Meeting of Board of Directors of Nam Securities Interest (Enforcement) Rules, 2002 had sent the demand notices dated as mentioned in column no 5 through Speed post, thereby calling upon the imited is scheduled to be held on Monday

> website (http://www.namsecurities.in/). For: NAM Securities Limited

financialexp.epap.in

Place: New Delhi

Dated: 05th September, 2020

Date of Completion of despatch of notices by Email: 06th September, 2020. The remote e-voting shall commences on Saturday, September 26, 2020 (9:00 a.m.

The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up

request at evoting@nsdl.co.in or RTA, MAS Services Limited. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through

to Tuesday, 29th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 36th

If you have not registered your email address with the Company/Depositories/RTA

detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company. 10. In case of any gueries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

 The Notice and the Annual Report are also available on the Company's website i.e. www.shivalikbimetals.com, on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the website of National Securities Depository Limited

Aarti Jassal

Form No. 155

Sd/

d) Facility for voting through poll shall also be made available during the AGM. e) Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting.

h) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. September 22, 2020 may mail to the company's RTA on info@skylinerta.com to

Manner of Registering and updating email addresses:

The member may update or register their email with the company's RTA's Website on

By order of the Board of Directors Date: 7th September, 2020 Memb. No. 38504

RELIANCE Santacruz (East), Mumbai 400 055. DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Mahavir Prashad Jain

Jain., 4. Mr. Sanjiv Jain

Place: Delhi, Date: 31.08.2020

son of Shri Mahavir Prashad Jain

financial discipline, the loan account has been classified as Non-performing assets (NPA) by LAKSHMI VILAS BANK LTD on 27.07.12. in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, LAKSHMI VILAS BANK LTD vide Assignment Agreement dated 31.07.2015 assigned the financial assets of following borrowers along with all its right, title and interest together with all underlying security interests in favour of Reliance Asset Reconstruction Company Limited as a Trustee of Reliance ARC 012 Trust. Pursuant to said assignment the undersigned authorised officer in exercise of powers conferred u/s 13(2) of the said Act r/w Rule 3 of the Security

served upon the borrowers by way of alternative mode of service.

Name of Borrower/

Guarantors/ Mortgagors etc. Notice Total dues as on 1. 1. M/s. M. Sons Gems N Jewelry Pvt. Ltd., 2. Shri Rajiv Jain son of Shri 21-Aug 39,57,17,011.85 owned and mortgaged by Shri Rajiv Jain and Shri Sanjiv 3. Smt. Meeru Jain wife of Shri Rajiv -2020

borrowers to repay the entire dues as mentioned in said notices with further interest thereon within a period of 60 days from the date of Notice.

However, as some of the packets containing demand notices returned unserved with postal remark "Left / Insufficient Address", the same is hereby

Total outstanding

n case of failure to repay the aforesaid dues within a period of 60 (sixty) days, the undersigned shall be constrained to enforce the above secured assets under the provisions of SARFAESI Act, 2002.

Please note that as per Section 13 (13) of the said Act, you are restrained from dealing with or transferring any of the secured assets referred to herewith, whether by way of sale, lease or otherwise. Any contravention of this provision is an offence and punishable under SARFAESI Act. Sd/- Authorized Officer

of Ch. Het Ram, West by: Road.

Secured Property

Address

Land and four storied residential building at Plot No.84,

Bharat Nagar, New Friends Colony, New Delhi consisting an

area of 598 Sq. Yrds. along with complete built up area

Kumar Jain. Bounded by: North by: New Friends Society.

South by: Property of Om Parkash Gupta, East by: Property

Website: www.namsecurities.in, Tel: 011-23731122/44 NOTICE
Notice is hereby given Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a

ompany for the Quarter ended 30th June, 2020. urther, in accordance with the provision of SEB Prohibition of Insider Trading) (Amendment Regulations, 2018, Company's Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Inside and BSE circular dated 2nd April, 2019 regards clarification on trading restriction period, the trading window shall continue to be closed till th ompletion of 48 hours after the results are made ublic on September 14, 2020. his intimation is available on BSE website https://www.bseindia.com/) and on the Company's

New Delhi

FOR OSWAL YARNS LIMITED

AAR SHYAM INDIA INVESTMENT COMPANY LIMITED NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder.

Princy Anand

NAM SECURITIES LIMITED CIN: L74899DL1994PLC350531 Regd. Off: 213, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Email Id: compliance@namsecurities.in,

eptember 14, 2020 at its registered office at 213 Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001 at 02.00 p.m. inter-alia, to consider and approve Un-Audited Financial Results of the

(Kiran Goyal) Date: 07.09.2020 Managing Director DIN: 00503357 Place: Delhi

जनसत्ता, नई दिल्ली, 7 सितंबर, 2020



अधिकतम-34.0 डि.से.

न्यूनतम- 25.0 डि.से. सूर्यास्त- 18:36

मोदी नैच्युरल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 405, दीपाली बिल्डिंग, 92, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 टेली: 011-41889999, ई-मेल: investors@modinaturals.com, वेबसाईटः www.modinaturals.com (CIN: L15142DL1974PLC007349)

शेयरधारक ध्यान रखें कि मोदी नैच्युरल्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के शेयरधारकों की 46वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020, 17/2020 तथा लागू योग्य अन्य कानूनों तथा सर्क्युलर के अनुपालन में बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 3.00 बजे अप. आईएसटी में आयोजित की जायेगी जिसमे सभा की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय को निष्पादित किया जायेगा।

. उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2019–20 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ ऐसे सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्र

3. ईमेल पते के पंजीकरण/अपडैटिंग का तरीकाः

i) डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने संबंधित डिपॉजिटरीज के पास अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के मध्यम से अपना ईमेल पता तथा मोबाईल नम्बर पंजीकृत कराएें

ii) भौतिक पद्धत्ति में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों तथा जिन्होंने कम्पनी के पास अपना ईमेल पत अद्यतन नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि नाम, सदस्य के पते, पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति तथ सदस्य के पते के प्रमाण में किसी भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसैन्स, मतदाता पहचान पत्र, पारपीर्ट आदि) की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति के साथ एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ admin@skylinerta.com पर कम्पनी के रजिस्टार तथा अंतरण एजेन्ट के पास अथव investors@modinaturals.com पर कम्पनी को लिखकर अपना ईमेल पता अद्यतन कराएें।

1. 46वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019–20 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.modinaturals.org, स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com तथ सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराया जायेगा। . शेयरधारक की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर रिमोटली अपन

मतदान करने का अवसर मिलेगा। डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति, भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों तथा ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं के लिये रिमोट ई-वोटिंग से मतदान की प्रक्रिया शेयरधारकों के लिये सूचना में उपलब्ध कराई जायेगी। 5. 46वीं एजीएम की सचना शेयरधारकों को उपयक्त समय पर पंजीकृत उनके ईमेल पते पर लाग होने वाले

कानूनों के अनुसार भेजी जायेगी। 7. सदस्यों से आग्रह है कि 21 सितम्बर, 2020 तक अपना ईमेल पता अद्यतन करा लें।

जानकारी तथा लाभ के लिये जारी की जा रही है।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 5 सितम्बर, 2020

3. ईमेल पते के सफल पंजीकरण के बाद कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2020 को कम्पनी के सदस्ये को वार्षिक रिपोर्ट तथा वोटिंग के निर्देशों के साथ एजीएम सुचना की एक सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होगा। सदस्ये अनुरोध है कि admin@skylinerta.com पर आरटीए को अथव

). यह सूचना एमसीए तथा सेबी के लागू होने वाले सर्क्युलर्स के अनुपालन में कम्पनी के सभी सदस्यों की मोदी नैच्युरल्स लिमिटेड के लिये

अक्षय मोर्द संयुक्त प्रबंधक निदेशव DIN: 03341142

आकाशदीप मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड सी आई एन : L28998DL1983PLC017150

पंजीकृत कार्यालय : 14, दयानंद विहार, बैंकसाइड ग्राउंड फ्लोर, विकास मार्ग एक्सटेंशन, विल्ली 110092, दूरभाष : +91-11-43011038, वेबसाइट : www.akashdeepmetal.com; ई मेल: info.akashdeep14@gmail.com

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि आकाशदीप मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) 36वीं वार्षि<mark>व</mark>

साधोरण सभी ("एजीएम") बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को दोपहर: 12:00 बजे (भारतीय समयानुसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("वीसी / ओएवीएम") की सुविधा के माध्यम भारतीय प्रतिमृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी दिनाकित 12 मई, 2020 सर्कुलर SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए परिपत्री द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नं. 14/2020, तिथि 8 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नं. 17/2020 - तिथि अप्रैल, 2020 तथा सर्कुलर नं. 20 / 2020 तिथि 5 मुई, 2020, के अनुसार उक्त एजीएम बुलाने वा<mark>ल</mark> नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये, आमंत्रित की गई है ।

इलैक्ट्रानिक माध्यम के द्वारा केवल उन सदस्यों को दिया गया है. जिनके ई मेल पते कंपनी के पा<mark>र</mark> अथवा उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत है । अतः सदस्य जिन्होने अपना ई−मेल् प<mark>त</mark> ांजीकृत नहीं किया है, कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुपालन करके पंजीकृत करें

पता, अपना फोलिओ संख्या, पूरा पता लिखकर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र की स्कैन प्रति पैन का की स्वयं हस्ताक्षरित स्केन प्रति के साथ और सदस्य की पंजीकृत पते के समर्थन में कोई <mark>भ</mark> दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमैन्ट, आधार) कंपनी के ई मेल प्रत info.akashdeep14@gmail.com. पर ई मेल, द्वारा भेज दे ।

छैं। डिमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिये, कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपन

36वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.akashdeepmetal.com अ स्टॉकएक्सचेंज यानि बएँससी लिमिटेड (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है ।

pंपनी अपने सदस्य को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के द्वा<mark>र</mark> ज़ीएम के पहले और मध्य मतदान करने के लिये दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा उपलब्ध कर रही है –मतदान के लिये विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट हैं। सदस्य जिनका ई–मे कंपनी / डिपॉजिटरी के पांस पंजीकृत नहीं है, ई—मतदान के लिये लॉगिन आइडी निम्नलिक्षत विवर<mark>ण</mark> कंपनी के ई-मेल आइडी अथवा आरटीए यानि info.akashdeep14@gmail.com अथव ippl@indusinvest.com क्रमशः पर प्रदान करकि प्राप्त कर सकते है :

 a) भौतिक शेयर धारको के लिये— कृपया जरूरी विवरण जैसे फोलिओ संख्या, शेयर घारको का नाम आधार (आधार कार्ड की स्वयं हस्ताक्षरित स्कैन प्रति)

 हिमैट शेयर धारको के लिये— डिमैट खाता का विवरण (सीडीएसएल का 16 अंक वाला लाभाष आईडी अथवा एनएसडीएल-16 अंक याला डीपी आईडी + क्लाइंट आईडी), नाम, क्लाइं मास्टर अथवा संमेकित खाते विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं हस्ताक्षरित स्कॅन प्रति) आधार (आधार कार्ड की स्वयं हस्ताक्षरित स्केन प्रति) प्रदान करे ।

हंपनी / आरटीए सीडीएसएल के साथ समन्वय करगें और उप्रतिखित शेयर धारकों को लॉगि<mark>न</mark>

परोक्त जानकारी कंपनी के सदस्यों की जानकरी एवं लाभ के लिये जारी की गई है ।

कृते आकाशदीप मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

55-56, 5वां तल, प्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइन्ट, मुम्बई- 400021 फोन नं.: 91-22 61884700, ईमेल: sys@pegasus-arc.com

URL: www.pegasus-arc.com

द्वारा प्राप्त साख सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इस संदर्भ में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार उनर्क ऋण खाताओं को बैंक की पुस्तकों में 7.03.2019 को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गय है। उसके बाद पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (यहां के बाद 'पेगासस' वर्णित) ने उक्त ऋणधारकों के अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्ग मांग सुचना 2.7.2020 को जारी कर उन्हें मांग सुचना में यथ वर्णित उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ 22.03.2020 को रु. 2,52,79,216/- (रुपए दो करोड़ बाबन लाख उन्यासी हजार दो सौ सोलह मात्र) की सम्पृण

इंडसइंड बैंक ने एसाइन्मेन्ट डीड तिथि 29.03.2019 के माध्यम से ऋण के पनर्भगतान के लिए अचल सम्पत्ति/ये के संदर्भ में निर्मित अंडरलाइंग प्रतिभृति तथा प्रतिभृति हित के साथ आपकी शीर्षांकित ऋण खाता/ अनुबंध के संदर्भ में उसके सभी अधिकार, टाइटल, हितों, लाभों के साथ अन्य बातों के अलावे आप पर बकाया तथा देय ऋण के पेगासस के पक्ष में सौंप दिया है। उक्त एसाइन्मेन्ट अनुबंध के आलोक में बकाए की वसुली के लिए तथा उक्त सुविधा की प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के निपटारे के लिए हम उपयुक्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने/ अपनाने एवं/ अथव आप सभी के विरुद्ध उसके स्वयं के नाम में किसी भी विद्यमान काननी कार्रवाई को जारी रखने/ उसका अनसरण करने के लिए अधिकृत हैं अतः, पेगासस अधिनियम की धारा 13 (2) के आपको यह सूचना जारी करने के लिए

अधिकत है तथा इसीलिए प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियम, 2002 (सरफैसी नियमों) के नियम 3 (1) के अनुसार इस प्रकाशन द्वारा आपको उक्त सूचना तिथि 02.07.2020 सर्व कर रहा है। क्रम सं. ऋणधारकों /गारन्टरों का नाम एवं पता

श्रीमती वर्षा पंजवानी, पत्नी श्री संजय पंजवानी मकान सं. 1, अल्बतिया रोड, नीलगिरि सिन्धी एन्क्लेव, शाहगंज, आगरा-282010

13/38, चार बाग, शाहगंज, आगरा-282010

श्री कमल पंजवानी, पुत्र श्री मोहन लाल पंजवानी

मकान सं. 1, अल्बतिया रोड, नीलगिरि सिन्धी एन्क्लेव, शाहगंज, आगरा-282010 श्री दीपक पंजवानी, पुत्र श्री नारायण दास पंजवानी

26 ए. स्वदेशी बीमा नगर, सिविल लाइन्स, चर्च रोड, आगरा-282010

श्री पुनीत पंजवानी, पुत्र श्री मोहन लाल पंजवानी

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों (अचल परिसम्पत्तियों का विवरण)

कुल बकाया देयताओं का विवरण 22.03.2019 को बकाया देयता

सम्पत्ति के लिये ऋण

ऋण सीमा की राशि रु. 2,50,00,000/-रु. 2,43,08,000/-बकाया ब्याज रु. 9,71,216/-22.03.2019 को बकाया देयता रु. 2,52,79,216.00

एतदृद्वारा पेगासस आप सभी को निर्देश देता है कि इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर सभी वित्तीय सहायता (ओं) के संदर्भ में बकाया तथा देय उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ 22.03.2019 को रु. 2,52,79,216/- (रुपये दो करोड़ बावन लाख उन्सासी हजार दो सौ सोलह मात्र) की कुल राशि का पेगासस को भुगतान करें।

कृपया ध्यान रहे कि यदि संबंधित ऋणधारक/ गारन्टर उपरोक्त रूप में पेगासस को भुगतान करने में विफल होते हैं तो पेगासस लागतों तथा परिणामों के लिये परी तरह से संबंधित ऋणधारकों/ गारन्टरों की जोखिम पर अधिनियम की धारा 13 (4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत वर्णित किसी एक या सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत होगा। कृपया यह भी ध्यान रहे कि सूचना की प्राप्ति के तत्काल बाद अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप पेगासंस की लिखित सहमित प्राप्त किये बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से प्रतिभृत परिसम्पत्तिये का अंतरण करने के अधिकार से वंचित होंगे। कपया यह भी ध्यान रहे कि धारा 13 (13) के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन करने पर आप अधिनियम की धारा 29 तथा किसी अन्य कानुन के अनुसार अन्य कानुर्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट दंड के भागी होंगे। कृपया ध्यान रहे कि अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) वे अनुसार यदि बिक्री तथा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय पेगासस के पास पेगासस द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ पेगासस के बकाये का पेगासस को भगतान कर दिया जाता है तं पेगासस द्वारा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की बिक्री अथवा अंतरण नहीं की जायेगा तथा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के अंतरण

एम्स के जैव रसायन विभाग और काय चिकित्सा विभाग का शोध

बंदर का मलेरिया अब इंसानों के अंदर

डेंगू को हराएगी दिल्ली प्रतिभा शुक्ल नई दिल्ली, 6 सितंबर। वजह से डेंगू का मच्छर पनप सकता है।

नई दिल्ली

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले साल

दिल्ली के दो करोड़ लोगों ने मिलकर डेंगू को

हराकर दिखाया था। इस बार भी

हमें मिलकर डेंगू को हराना है।

भी इसमें हिस्सा लेने की अपील

की। उन्होंने कहा कि अगले 10

हफ्ते, हर रविवार सुबह 10 बजे

सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें

अपने-अपने घर की जांच करनी

है। बीते वर्ष अभियान की

सफलता की वजह से 1400-

1500 डेंगू के मामले हुए थे,

जबिक कुछ साल पहले तक 14-15 हजार

सर्वेक्षण का दावा, महज तीन फीसद लोग ही पर्यटन के लिए तैयार

घर ही इस समय सुरिक्षत संसार

दशहरा, दीपावली व छठ के लिए अपने राज्यों

के लिए अक्तूबर - नवंबर में जाते हैं। लोकल

सर्किल की रिपोर्ट के मृताबिक, त्यौहार के इस

समय में अक्तूबर से दिसंबर के बीच 69 फीसद

लोग अपने घरों में ही रहना चाहते हैं जबिक 3

फीसद ही कहीं घूमने जाने की इच्छा रखते हैं।

रिश्तेदारों के यहां जाना चाहते हैं और तीन

फीसद दोनों ही प्रकार से घमने जाना चाहते हैं ।

12 फीसद ऐसे भी लोग हैं जो अभी इस मामले

में किसी भी प्रकार के नजीते को लेकर अपनी

कोई राय नहीं रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 100

फीसद लोगों में से 23 फीसद लोग ही इस बार

हवाई जहाज व 38 फीसद लोग रेल से यह यात्रा

पहले मोबाइल ऐप से संपर्क, फिर युवक की हत्या

इसी प्रकार 13 फीसद अपने दोस्त व

मामले हुआ करते थे।

उन्होंने विभिन्न संगठनों से

राजधाना

मुख्यमंत्री ने अपने आवास से शुरू किया अभियान

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 6 सितंबर।

अगले 10 सप्ताह में दिल्ली

अब डेंगू को हराएगी। इसके लिए

रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद

केजरीवाल ने अपने आवास से

विशेष अभियान की शुरुआत की।

केवल दस मिनट की जांच के

जरिए आम जनता तक डेंगू के

प्रति जागरूक किया जाएगा।

अभियान में दिल्ली सरकार के

मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया।

पंकज रोहिला

नई दिल्ली, 6 सितंबर।

जनसत्ता सवाददाता

जनसत्ता सवाददाता

नई दिल्ली, 6 सितंबर।

को अंजाम देना था।

जनसत्ता सवाददाता

नई दिल्ली, 6 सितंबर।

दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर से

झारखंड की एक बच्ची छुड़ाई

गई। घरेलु सहायिका के तौर पर

काम कर रही इस लड़की का कई

दिल्ली महिला आयोग की

ओर से चलाए गए बचाव

ऑपरेशन के तहत छुड़ाई गई इस

दिल्ली में लाकर बेच दिया गया

www.readwhere.com

बच्ची को नौ साल की उम्र में

बार यौन शोषण भी हो चुका है।

नई दिल्ली. 6 सितंबर।

दयाल के तौर पर की गई है।

मुख्यमंत्री ने अपने घर व आसपास में ऐसी

जगहों की जांच की जहां पर पानी भरा होने की

कोरोना संक्रमण का असर अभी कुछ दिन

और देश के पर्यटन केंद्रों पर रहेगा। हाल ही

में सामने आए ताजा सर्वेक्षण में यह तथ्य

सामने आए हैं। सर्वेक्षण में अगस्त- सितंबर

माह में भ्रमण को लेकर लोकल सर्किल ने

आम जनता से रायशमारी की है। इस

रायशुमारी में सामने आया है कि लोग कहीं भी

घूमने जाने की बजाय घर रहकर अपने परिवार

लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गा पूजा,

देश में हर वर्ष इन दो माह में लोग भ्रमण के

सरिता विहार थाना क्षेत्र में शनिवार को एक

युवक की जंगल में चाकु घोंपकर हत्या कर दी

गई। युवक की पहचान 25 साल के सनी

ऐप ब्लुड से संपर्क साधा था और मिलने के

लिए आली विहार में बुलाया था। वहां से

आरोपी स्कूटी में उसे सुनसान इलाके में ले

गए, जहां मोबाइल फोन लूटने लगे। विरोध

करने पर बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी।

जिला पुलिस के स्पेशल स्टॉफ ने पुलिस ने

हत्या में शामिल गौतम पुरी निवासी 20 साल

के समित उर्फ डब्बा और 24 साल के कार्तिक

दिल्ली दंगे में छात्र की

हत्या के आरोपी को

गिरफ्तार किया गया

उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में शिव विहार, राजधानी पब्लिक

स्कूल के पास कानून के छात्र राहुल सोलंकी नामक युवक की गोली

मारकर हत्या के आरोपी मुस्तकीम सैफी को अपराध शाखा ने गिरफ्तार

कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित

था। उसके पास से हथियार और कारतुस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस

निवासी मस्तकीम उर्फ समीर सैफी (25) ने इसी साल 24 फरवरी

को शिवविहार में राजधानी पब्लिक स्कूल के पास राहल सोलंकी की

कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुस्तकीम फरुकिया

मस्जिद के पास नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) और राष्ट्रीय

नागरिक पर्जा (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनी में शामिल हुआ था।

जबिक राहुल सोलंकी गाजियाबाद के एक निजी कॉलेज से कानून की

पढ़ाई कर रहा था। वारदात के दिन वह दुध खरीदने के लिए अपने

घर से बाहर निकला था जब उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई

थी। पुलिस ने कहा कि एसआईटी ने सोलंकी मामले में अन्य सात

आरोपियों-आरिफ, अनीस, सिराजुद्दीन, सलमान, सोनू, सैफी और

इरशाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन पर 24 फरवरी को दंगों

में शामिल होने का आरोप लगाया है जिसका उद्देश्य आगजनी आदि

झारखंड से लाई गई बच्ची

रही थी।

को छुड़ाया गया

था। कई साल से वह घरेलू पुलिस कार्रवाई कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि पुराना मुस्तफाबाद

ने बताया कि मुस्तकीम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

युवक से आरोपियों ने समलैंगिक मोबाइल

के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं।

अभियान के तहत हर सप्ताह

बंदरों में पाया जाने वाला मलेरिया अब भारत में इंसानों में भी पाया जाने लगा है। यह ही नहीं एक ही मरीज में मलेरिया, डेंगू सहित कई तरह के संक्रमण एक साथ हो रहे हैं। यह खुलासा एम्स की ओर से हए एक शोध में किया गया है।

शोध में पाया गया है कि जंगल व पहाडों के कटने के कारण यह जानवर शहरों-गावों की ओर आ रहे हैं जिससे इनकी बीमारियां भी इंसानों में पहुंच रही हैं। शोध की लेखक डॉ प्रज्ञान आचार्य ने आगाह किया है कि अगर पर्यावरण को लेकर हम नहीं चेते तो कोरोना की तरह जानवरों की बीमारियां इंसानों में

करना चाहेंगे जबकि सुरक्षा कारणों से 84 फीसद

लोग अपनी यात्रा को टैक्सी या गाड़ी के माध्यम

से ही करना चाहते हैं। सामान्यतौर पर इस

बुकिंग के लिए हमेशा ही मारामारी रहती है लोग

अपनी छुट्टियों के आधार पर यह बुकिंग कराते

हैं। लेकिन इस बार रायशुमारी में यह भी सामने

आया है कि लोग ट्रेन से जाने का फैसला अंतिम

दिनों में करेगे और उसी समय ही बुकिंग कराना

है कि इससे आने वाले दिनों में सडकों पर

यातायात बढ़ सकता है। इस पूरे सर्वेक्षण के

लिए देश भर से 25 हजार मत सामने आए हैं।

इनमें 66 फीसद पुरुष व 34 फीसद महिलाएं हैं।

रिपोर्ट के आधार पर यह संभावना जताई गई

पसंद करेंगे।

शोध में 60 फीसद मरीजों में मलेरिया के अन्य संक्रमण मिले। जिनमें से 44 फीसद में मलेरिया के साथ वायरल संक्रमण पाया गया, 25 फीसद में प्लाज्मोडियम के साथ जीवाणु जनित संक्रमण मिले, जबिक 17 फीसद मरीजों में मलेरिया के साथ लैप्टोस्पाइरा मिला। आठ फीसद मरीजों में अन्य तरह के संक्रमण पाए गए।

और बढ़ेंगी। यह शोध अमेरिकी मेडिकल जर्नल में छपा है। एम्स के जैव रसायन विभाग ने काय चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर बुखार के लक्षणों वाले मरीजों पर शोध किया। मलेरिया का यह प्रारूप बंदरों में पाया जाता है या भारत के बाहर दक्षिण एशियायी देशों में पाया जाता रहा है। लेकिन शोध में देखा गया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार व

हरियाणा से आए मरीजों में भी बंदरों में पाया जाने वाला मलेरिया है। इसके साथ ही मरीजों में एक ही समय में बुखार के वायरल, बैक्टीरियल व पैरासाइट जैसे तीनों कारण मौजूद हैं। जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक चला शोध 99 मरीजों पर किया गया। इसके नतीजों का विश्लेषण के बाद शोध को अमेरिका के सेंटर फार डिजीज कंट्रोल की मेडिकल जर्नल आफ इमर्जिंग इन्फेक्सियस

> डिजीज में छापा गया है। डॉ आचार्य ने कहा कि बुखार के कई कारकों की जांच जरूरी है। उन्होने कहा कि उनकी कोशिश है कि आगे जांच की ऐसी किट बनाई जाय जिसमें एक ही जांच में सभी तरह के संक्रमण का कारण पता चल जाए व मरीज का समग्रता से इलाज हो सके।

पंजाब नैशनल बैंक

punjab national bank
...the name you can BANK upon t

एचआरएम प्रमाग, प्र.का. सैक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 पंजाब नैशनल बैंक विशेषज्ञ अधिकारियों के 535 पदों की भर्ती हेत् ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है

विस्तुत विज्ञापन हेतु कृपया दिनांक 07.09.2020 के पश्चात बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in को देखें अथवा दिनांक 12.09.2020 के एम्पलॉयमेंट न्यूज का सन्दर्भ लें।

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 29.09.2020

उप महाप्रबंधक (एचआरएमडी)

महान फूड्स लिमिटेड CIN No.: L15419DL1987PLC350285 पंजी. कार्यालय: एम-19, 1ला तल, एम-ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048

> ईमेलः info@mahaanfoods.com, वेबसाईटः www.mahaanfoods.com,

फोन.: 011-43107200, फैक्स: 011-43107250, 33वीं वार्षिक एजीएम तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सुचना एतदहारा सचित किया जाता है कि महान फड़स लिमिटेड (''कम्पनी'') की 32वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) 28 सितम्बर, 2020 को 12.00 बजे अप. आईएसटी में (एमसीए) द्वारा जारी साधराण सर्क्युलर संख्या 20/2020, 14/2020, 17/2020 के उपयुक्त अनुपालन में 33वीं एजीएम आमंत्रण की सुचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी'ज कम्पनी में पंजीकृत हैं| ईमेल द्वारा एजीएम की सूचना का प्रेषण 5 सितम्बर, 2020 को पूरा कर लिया गया है।

कम्पनी (प्रबंधक तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, समय समय पर यथा-संशोधित के नियम 20, सिचवालयी मानक-2 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी 33वीं वार्षिक साधारण सभा की आमंत्रण सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है।

कट-ऑफ तिथि (21 सितम्बर, 2020)को भौतिक पद्धति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति शेयरधारित करने वाले सदस्य एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 (10.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी तथा रविवार, 27 सितम्बर, 2020 (5.00 बजे अप. आईएसटी) में बंद होगी। 27 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली निष्क्रिय कर दी जायेगी। वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हैं अथवा ऐसे करने से किसी रूप में वंचित नहीं किये गये हैं, को एजीएम में मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा एजीएम में ई–वोटिंग प्रणार्ल द्वारा मतदान करने के लिये वे योग्य होंगे। विस्तृत जानकारी के लिये सदस्यगण कृपया 33वीं एजीएम की आमंत्रण सूचना देखें। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराये हैं उनसे आग्रह है कि 33वीं एजीएम की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग के लिये निर्देशों तथा वीसी के द्वारा एजीएम में भाग लेने के लिये निर्देशों के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की प्रतियां प्राप्त करने के लिये csmfl@mahaanfoods.com पर उन्हें लिखकर कम्पनी के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएं। जिन सदस्यों को वीसी के माध्यम से सभा में प्रवेश तथा भाग लेने मे तकनीकी सहयोग की जरूरत हो, वे 33वीं एजीएम की आमंत्रण सुचना में दी गई हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क करें।

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें गुरुवार, 24 सितम्बर, 2020 से सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

Tel.: +91-0120-4214258, Fax.: +91-11-22417225 Email Id.: cmpsec@cclil.com. Website: www.evocreteindia.com

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the CCL International Limited ('Company') will be held on Wednesday, 30th September 2020 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM') without the physical presence of the Members at a common venue in accordance with the circulars issued by MCA and SEBI, to transact the businesses as set out in the Notice of the 29th AGM, dated 31st August, 2020. The Notice of the AGM and Annua Report for the year ended March 31, 2020 has been sent by electronic mode to members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories/RTA and the email process has been completed on 06th September, 2020. The aforesaid documents are also available on the company website at www.evocreteindia.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

services, Detail pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with

2. The remote e-voting period starts on Sunday, 27th September, 2020 (9.00 a.m. IST and ends on Tuesday, 29th September, 2020 (5.00 p.m. IST). Remote e-voting shall be disabled by NSDL at 5:00 p.m. on 29th September, 2020 and members shall not be allowed to vote through remote e-voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. For the electronic voting instruction, shareholders may go through the instruction in the

3. Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is 23rd

4. A member may participate in the 29th AGM even after exercising his right to vote

through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. 5. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e.

sending a request at evoting@nsdl.co.in. 6. Further notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from

Wednesday, 23rd September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 (both days 7. If you have not registered your email address with the Company/depositary, you may

Physical Please send a request to the Company's Registrar and Transfer Agent, Alankit Assignments Ltd, by providing a signed request letter quoting folio no..., name, scan copy of the Share Certificate (front and back), self-attested copy of PAN, self-attested copy of AADHAR Card by email to RTA for their registered email

Holding demat account, as per the procedure advised by your DP.

MCA & SEBI from time to time. 9. For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries/grievances with regard to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, at the designated email id- evoting@nsdl.co.in or

pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:-+91 22 24994545, +91 प्रयोज्य नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय 22 24994559. 10. The detail of AGM is also available on the website of the Company a www.evocreteindia.com , NSDL at evoting@nsdl.co.in and BSE Limited at

Pradeep Kumar

क्वेश्चन्स (''एफएक्यू'') तथा इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल करें या दुरभाष : 022 -4918 6000 पर सम्पर्क करें।

Company Secretary & Compliance Officer Mem. No. A50972

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने

Date: September 05, 2020

Place: Delhi

टिवटर हैंडल पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस लडकी को नौ साल की उम्र में बेच दिया गया था। उन्होंने बताया कि कल पुरी रात उनकी टीम की ओर से चलाए गए बचाव अभियान के बाद लड़की को छुड़ा लया गया है। इस मामले में टीम ने एफआइआर भी दर्ज कराई है।

सहायिका के तौर पर काम कर

सनी के परिवार पर टूटा दुख का पहाड़ निर्भय कुमार पाडेय नई दिल्ली, 6 सितंबर।

जिस सनी की हत्या की गई है उसकी डेढ़ साल पहले ही शादी हुई थी। सनी का एक बेटा भी था, जिसकी करीब दो महीने पहले ही बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। फिलहाल सनी अपने भाई सुनील और भाभी के साथ भगत कॉलोनी, आली विहार में किराए के मकान में रहता था। वह मथुरा रोड स्थित वोल्वो कंपनी में पैंटरी ब्वॉय का काम करता था। सुनील ने बताया कि सनी की उसकी पत्नी भी पहले साथ में ही रहती थी और उसके पिता भी साथ में ही रहते थे। पर पिता के पैर में ऑपरेशन होने और पूर्णबंदी की वजह से उनकी नौकरी चली गई तो दोनों कासगंज चले गए।

को गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि शनिवार को मामले की सूचना मिली थी आगे स्पेशल स्टाफ के पास जाने पर तकनीकि

उसका मोबाइल फोन गायब है और कुछ समय पहले ही उसे बंद कर दिया गया है। मामला

की जांच में पुलिस टीम को पता चला कि सर्विलांस की मदद से मामला खुला। **CCL INTERNATIONAL LIMITED** CIN No.: L26940DL1991PLC044520 Regd.Off.: M-4, Gupta Tower, B 1/1, Commercial Complex,

> NOTICE FOR 29TH ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

Azadpur, New Delhi - 110033

The Company has entered into an arrangement with NSDL to facilitating remote e-voting

relevant rules and Listing Regulations is given below: 1. Date of Completion of Dispatch of notices by email: 06th September, 2020

September, 2020.

Wednesday, 23rd September, 2020, may obtain the login ID and password by

please follow instructions for obtaining the login details for e-voting:

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address in your 8. Members are encouraged to register their email-ids as company is sending communiqué to Members in electronic mode in accordance with circulars issued by

For CCL International Limited

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 6 सितम्बर, 2020

कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 05.09.2020 कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड सीआईएन: L33200UP1993PLC015474 पंजीकृत कार्यालयः 19 किमी, हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर-203408 मुख्य कार्यालयः प्लॉट नं. 12, सेक्टर-बी-1, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110 070

दूरभाष: 011-40322100, ई-मेल: cs cfhlgindalgroup.com; वेबसाइटः www.consofinvest.com वार्षिक आम बैठक तथा बुक क्लोजर की सूचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन हेतू कंसोलिडेटेट फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक केवल ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') द्वारा मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 2.30 बजे अप. आयोजित की जायेगी कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक 5 मार्च. 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 एवं सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में एजीएम केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी। एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराये गये हैं।

∥सदस्यों के पास भेजी जा रही है जिनके ई–मेल पते कम्पनी या सीडीएसयू एनएसडीएल (''डिपॉजिटरी'') के पास पंजीकृत हैं और साथ ही ये कम्पनी की वेबसाइट www.consofinvest.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं और जिसके कारण उनके पास एजीएम की सूचना तथा ई–वोटिंग के निर्देश सहित वार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी है वे एजीएम की सूचना मे प्रावधानित रीति के अनुसार अपने ई-मेल पते कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, लिंक

इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकृत करा लें।

वित्त वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन

कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम के संचालन तथा ई-वोटिंग सुविधा हेतु अधिकृत एजेंसी के रूप में लिंक इनटाइम की सेवाएं ग्रहण की हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 को (९.०० बजे प्रातः भा.मा.स.) प्रारम्भ होगी और सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 (5.00 बजे सार्य भा.मा.स.) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान पात्र शेयरधाक जो भौतिक या अभौतिक रूप से शेयर धारण करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल लिंक इनटाइम द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा अर्थात 28 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. के पश्चात मतदान की अनुमति नहीं होगी। ई–वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के लिए एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जायेगी जो एजीएम में शामिल होंगे और जिन्होंने अपना मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे एजीएम मे वीसी/ओएवीसी के माध्यम से उपस्थित रह सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान के पात्र नहीं होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु सदस्यों की पात्रत

निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 है। कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह अपना मतदान करने हेतु enotices@linkintime.co.in पर निवेदन भेजकर अथवा दूरभाष 022 -4918 6000 पर सम्पर्क करके लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-वोटिंग का उपयोग करने की विस्तत प्रक्रिय एजीएम की सुचना में उपलब्ध है। शेयरधारक/सदस्य ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ या समस्या के लिए https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड

बोर्ड (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनपालन मे एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम हेतु सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिक बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 से मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020, दोनों तिथियाँ शामिल, बन्द रहेगी। निदेशक मण्डल के आदेशानसार कृते कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड

धान ः नई दिल्ली देनांक : 05.09.2020 एतद्द्वारा नीचे वर्णित ऋणधारकों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि चूंकि उन्होंने इंडसइंड बैंक लि. से उनके महान फूड्स लिमिटेड के लिये आयुषी विजय

कम्पनी सचिव

सदस्यता सं. ए 55853 सेवा उन्हें प्राप्त नहीं होने का ध्यान रखते हुए सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित

> श्री नारायण दास पंजवानी, पुत्र श्री मोहन लाल पंजवानी मकान सं. 1. अल्बतिया रोड. नीलगिरि सिन्धी एन्क्लेव, शाहगंज, आगरा-282010 श्रीमती दीपा पंजवानी, पत्नी श्री नारायण दास पंजवानी मकान सं. 1, अल्बतिया रोड, नीलगिरि सिन्धी एन्क्लेव, शाहगंज, आगरा-282010 श्री संजय कुमार पंजवानी, पुत्र श्री मोहन लाल पंजवानी ए-52, नाहुमान नगर, मानु विहार, फेज-II, मारुति ईस्टेट, शाहगंज, आगरा-282010

मकान सं. 1. अल्बतिया रोड, नीलगिरि सिन्धी एन्क्लेव, शाहगंज, आगरा-282010

में म्यनिसिपल कॉर्पोरेशन नं. 2/26ए (जज पार्ट नाथ साउथ साईड), स्वदेशी बीमा नगर, राम नगर कॉलोनी, चर्च रोड, टॉरेन्ट पावर कार्यालय के निकट, हरि पर्वत वार्ड, आगरा, माप 70.61 वर्ग मी. में स्थित अचल व्यावसायिक सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा, चौहद्दी इस प्रकार है उत्तरः सम्पत्ति सं. 2/26बी, पश्चिमः सम्पत्ति सं. 2/26ए का भाग, पूर्वः सम्पत्ति सं. 2/26ए (जज पार्ट)

अथवा बिक्री के लिये पेगासस द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

वार्षिक साधारण सभा की सदस्यों की सूचना

उक्त एमसीए सर्कुलर के अनुसार वार्षिक विवरणी 2019—20, के साथ 36वीं एजीएम की सूच<mark>ना</mark> a) भौतिक पद्धति में शेयर धारण करने वाले सदस्य के लिये, कृपया पंजीकृत करवाने वाला ई मे<mark>ल</mark>

शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछें) की स्कैन प्रति, पेन (पेन कार्ड की स्वयं हस्ताक्षरित स्कैन प्रति)

राजेश गृप्ता

प्रबंधक निदेशक

बकाया राशि के पुनर्भुगतान का निर्देश दिया था। नीचे वर्णित ऋणधारकों/ गारन्टरों के अंतिम ज्ञात पते पर सूचना र्क

मकान सं. 1, अल्बतिया रोड, नीलगिरि सिन्धी एन्क्लेव, शाहगंज, आगरा-282010

श्री संजय कुमार पंजवानी, श्रीमती वर्षा पंजवानी, श्री नारायण दास पंजवानी तथा श्रीमती दीपा पंजवानी के स्वामित्व

(पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट-37 के ट्रस्टी)

investors@modinaturals.com पर कम्पनी को किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये लिखें।